

आव २०७३/०७४ सालको पत्रपत्रिका वर्गीकरणका लागि प्राप्त ९५३ दरखास्त आवेदनहरु र सोको वर्गीकरणको पुनरावलोकनसहितको अन्तिम नतिजासम्बन्धी विवरण

सि नं	पत्रिकाको नाम	जिल्ला	पत्रिकाको प्रकार	प्रकृति	वर्ग	कैफियत
१	अन्नपूर्णपोष्ट दैनिक	काठमाडौं	दैनिक	राष्ट्रिय	क+	
२	कान्तिपुर दैनिक	काठमाडौं	दैनिक	राष्ट्रिय	क+	
३	गोरखापत्र दैनिक	काठमाडौं	दैनिक	राष्ट्रिय	क+	
४	द काठमाडौंपोष्ट दैनिक	काठमाडौं	दैनिक	राष्ट्रिय	क+	
५	दि हिमालयन टाइम्स दैनिक	काठमाडौं	दैनिक	राष्ट्रिय	क+	
६	नयाँ पत्रिका दैनिक	काठमाडौं	दैनिक	राष्ट्रिय	क+	
७	नागरिक दैनिक	काठमाडौं	दैनिक	राष्ट्रिय	क+	
८	जनआस्था साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	क+	
९	नेपाल साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	क+	
१०	शुक्रवार साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	क+	
११	साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	क+	
१२	हिमाल खबरपत्रिका	ललितपुर	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	क+	
१३	सर्वोत्तम नारी मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	क+	
१४	शिक्षक मासिक	ललितपुर	मासिक	राष्ट्रिय	क+	
१५	अनुमोदन दैनिक	कैलाली	दैनिक	स्थानीय	क	
१६	जनविद्रोह दैनिक	मोरङ	दैनिक	स्थानीय	क	
१७	जनसंसद दैनिक	झापा	दैनिक	स्थानीय	क	
१८	तनहुँ उदघोष दैनिक	तनहुँ	दैनिक	स्थानीय	क	
१९	ताजा समाचार दैनिक	सप्तरी	दैनिक	स्थानीय	क	
२०	दरौंदी दैनिक	गोरखा	दैनिक	स्थानीय	क	
२१	धौलागिरी जागरण दैनिक	बागलुङ	दैनिक	स्थानीय	क	
२२	नेपालभाषा टाइम्स दैनिक	काठमाडौं	दैनिक	स्थानीय	क	
२३	न्यूमेची टाइम्स दैनिक	झापा	दैनिक	स्थानीय	क	
२४	पहुरा थारु दैनिक	कैलाली	दैनिक	स्थानीय	क	
२५	पूर्व प्रभात दैनिक	सप्तरी	दैनिक	स्थानीय	क	
२६	भन्ज्याङ दैनिक	तनहुँ	दैनिक	स्थानीय	क	
२७	मादीसेती प्रवाह दैनिक	तनहुँ	दैनिक	स्थानीय	क	
२८	राजविराज दैनिक	सप्तरी	दैनिक	स्थानीय	क	
२९	साझा बिसौनी दैनिक	सुर्खेत	दैनिक	स्थानीय	क	
३०	साझाकुरा राष्ट्रिय दैनिक	मकवानपुर	दैनिक	स्थानीय	क	
३१	करुवा अर्ध-साप्ताहिक	पाल्पा	अर्ध-साप्ताहिक	स्थानीय	क	
३२	अग्रदीप साप्ताहिक	धनकुटा	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
३३	अन्तरङ्ग साप्ताहिक	लमजुङ	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
३४	ओखरेनी साप्ताहिक	सिन्धुपाल्चोक	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
३५	खबर चौतारी साप्ताहिक	काभ्रेपलाञ्चोक	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
३६	गाउँले देउराली साप्ताहिक	पाल्पा	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
३७	गामघर साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
३८	ग्रेटर नेपाल साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
३९	चुरे सन्देश साप्ताहिक	चितवन	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
४०	जनआन्दोलन साप्ताहिक	झापा	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
४१	जनता जिन्दावाद	मकवानपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
४२	तनहुँ आवाज साप्ताहिक	तनहुँ	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
४३	तामाकोशी सन्देश साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	क	

सि नं	पत्रिकाको नाम	जिल्ला	पत्रिकाको प्रकार	प्रकृति	वर्ग	कैफियत
४४	दिव्य रोशनी साप्ताहिक	सुनसरी	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
४५	दिव्य चक्षु साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
४६	दुनियाँका खबर साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
४७	इस्टान्त साप्ताहिक	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
४८	धरहरा टाइम्स साप्ताहिक	भक्तपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
४९	नव तरङ्ग साप्ताहिक	दोलखा	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
५०	नवसम्वाद साप्ताहिक	पाल्पा	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
५१	नागरिक आह्वान साप्ताहिक	उदयपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
५२	निकास साप्ताहिक	मकवानपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
५३	निष्पक्ष अभिमत साप्ताहिक	पर्वत	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
५४	नौलो जनउभार साप्ताहिक	दाङ	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
५५	न्यू पाथीभरा साप्ताहिक	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
५६	न्यूज डटकम साप्ताहिक	सुनसरी	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
५७	परासी पत्र साप्ताहिक	नवलपरासी	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
५८	पर्वत खबर साप्ताहिक	पर्वत	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
५९	पाल्पा समाचारपत्र साप्ताहिक	पाल्पा	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
६०	पाविल साप्ताहिक	धादिङ	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
६१	पूर्वज्योती साप्ताहिक	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
६२	पूर्वतारा उदयपुर साप्ताहिक	उदयपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
६३	प्रभातफेरी साप्ताहिक	काभ्रेपलाञ्चोक	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
६४	प्रयास साप्ताहिक	मकवानपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
६५	फेवा साप्ताहिक	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
६६	फेवापोष्ट साप्ताहिक	कास्की	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
६७	मेट्रो टुडे साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
६८	यलम्बर टाइम्स साप्ताहिक	झापा	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
६९	लमजुङ जागरण साप्ताहिक	लमजुङ	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
७०	ललित सन्देश साप्ताहिक	ललितपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
७१	लोकमत साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
७२	विकास खबर पत्रिका साप्ताहिक	मकवानपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
७३	शुक्रवाःया तँसापौ	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
७४	शुभसन्देश साप्ताहिक	पर्वत	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
७५	शुभेच्छा सन्देश साप्ताहिक	चितवन	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
७६	सञ्जीवनीपत्र साप्ताहिक	काभ्रेपलाञ्चोक	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
७७	सफल नेपाल साप्ताहिक	सिन्धुली	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
७८	साक्षी खबर साप्ताहिक	दाङ	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
७९	साझा नेपाल साप्ताहिक	सिन्धुली	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
८०	सिन्धु बुलन्द साप्ताहिक	सिन्धुपाल्चोक	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
८१	सिन्धुज्वाला साप्ताहिक	सिन्धुपाल्चोक	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
८२	सिन्धुपोष्ट साप्ताहिक	सिन्धुपाल्चोक	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
८३	सिन्धुसन्देश साप्ताहिक	सिन्धुपाल्चोक	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
८४	सुसन्देश साप्ताहिक	काभ्रेपलाञ्चोक	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
८५	हाम्रो एकता साप्ताहिक	प्युठान	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
८६	हाम्रो नयाँ नेपाल विचार	धनकुटा	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
८७	हिमालपारीको आवाज साप्ताहिक	मुस्ताङ	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
८८	हेटौंडा वाः पौ साप्ताहिक	मकवानपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	क	
८९	ईलोहं बाल मासिक	काठमाडौं	मासिक	स्थानीय	क	

सि नं	पत्रिकाको नाम	जिल्ला	पत्रिकाको प्रकार	प्रकृति	वर्ग	कैफियत
९०	थेम्स मासिक	भक्तपुर	मासिक	स्थानीय	क	
९१	लिपि पौ मासिक	काठमाडौं	मासिक	स्थानीय	क	
९२	शिक्षालय मासिक	ललितपुर	मासिक	स्थानीय	क	
९३	अग्निबाँण पाक्षिक	काठमाडौं	पाक्षिक	स्थानीय	क	
९४	मिसाइल पाक्षिक	मकवानपुर	पाक्षिक	स्थानीय	क	
९५	समय सन्दर्भ पाक्षिक	काठमाडौं	पाक्षिक	स्थानीय	क	
९६	समरेखा म्यागजिन द्वैमासिक	दाङ	द्वैमासिक	स्थानीय	क	
९७	आँजुर द्वैमासिक	धनुषा	साहित्यिक	स्थानीय	क	
९८	कलश मासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	स्थानीय	क	
९९	कालिको सुसेली त्रैमासिक	पर्वत	साहित्यिक	स्थानीय	क	
१००	नःलि मासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	स्थानीय	क	
१०१	महामण्डल त्रैमासिक	नुवाकोट	साहित्यिक	स्थानीय	क	
१०२	रुपायन त्रैमासिक	नुवाकोट	साहित्यिक	स्थानीय	क	
१०३	लावा डग्गर त्रैमासिक	दाङ	साहित्यिक	स्थानीय	क	
१०४	श्रृंखला मासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	स्थानीय	क	
१०५	रिपब्लिका दैनिक	काठमाडौं	दैनिक	राष्ट्रिय	क	
१०६	आर्थिक अभियान दैनिक	काठमाडौं	दैनिक	राष्ट्रिय	क	
१०७	आर्थिक दैनिक	ललितपुर	दैनिक	राष्ट्रिय	क	
१०८	कारोबार दैनिक	काठमाडौं	दैनिक	राष्ट्रिय	क	
१०९	गोरक्ष दैनिक	दाङ	दैनिक	राष्ट्रिय	क	
११०	जनसवाल दैनिक	काठमाडौं	दैनिक	राष्ट्रिय	क	
१११	दि राइजिंग नेपाल दैनिक	काठमाडौं	दैनिक	राष्ट्रिय	क	
११२	दैनिकपत्र दैनिक	रुपन्देही	दैनिक	राष्ट्रिय	क	
११३	नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिक	दाङ	दैनिक	राष्ट्रिय	क	
११४	नेपाल समाचारपत्र	ललितपुर	दैनिक	राष्ट्रिय	क	
११५	प्रतिक दैनिक	पर्सा	दैनिक	राष्ट्रिय	क	
११६	प्रभाव दैनिक	काठमाडौं	दैनिक	राष्ट्रिय	क	
११७	बुटवल टुडे दैनिक	रुपन्देही	दैनिक	राष्ट्रिय	क	
११८	मध्यान्ह दैनिक	काठमाडौं	दैनिक	राष्ट्रिय	क	
११९	मेचीकाली सन्देश दैनिक	रुपन्देही	दैनिक	राष्ट्रिय	क	
१२०	राजधानी दैनिक	काठमाडौं	दैनिक	राष्ट्रिय	क	
१२१	लुम्बिनी दैनिक	रुपन्देही	दैनिक	राष्ट्रिय	क	
१२२	सौर्य दैनिक	काठमाडौं	दैनिक	राष्ट्रिय	क	
१२३	हिमालय टाइम्स दैनिक	काठमाडौं	दैनिक	राष्ट्रिय	क	
१२४	नेपाली टाइम्स अर्ध-साप्ताहिक	ललितपुर	अर्ध-साप्ताहिक	राष्ट्रिय	क	
१२५	घटना र विचार साप्ताहिक	ललितपुर	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	क	
१२६	छलफल साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	क	
१२७	जनधारणा साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	क	
१२८	जनभावना साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	क	
१२९	जनसंघर्ष साप्ताहिक	रुपन्देही	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	क	
१३०	तरुण साप्ताहिक	ललितपुर	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	क	
१३१	दृष्टि साप्ताहिक	ललितपुर	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	क	
१३२	देशान्तर साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	क	
१३३	नयाँ विकल्प साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	क	
१३४	बुधबार साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	क	
१३५	मधेशवाणी साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	क	

सि नं	पत्रिकाको नाम	जिल्ला	पत्रिकाको प्रकार	प्रकृति	वर्ग	कैफियत
१३६	राष्ट्रिय जनमञ्च साप्ताहिक	ललितपुर	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	क	
१३७	साँघु साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	क	
१३८	साप्ताहिक विमर्श साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	क	
१३९	सेयर बजार साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	क	
१४०	हाँक साप्ताहिक	ललितपुर	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	क	
१४१	अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	क	
१४२	अपाङ्ग आवाज मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	क	
१४३	अर्थ र रोजगार मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	क	
१४४	ऐक्यवद्धता मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	क	
१४५	द पब्लिक मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	क	
१४६	द बिजनेस जर्नल मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	क	
१४७	युवामञ्च मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	क	
१४८	रेखांकन मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	क	
१४९	समयबोध मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	क	
१५०	समावेशी राष्ट्रिय मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	क	
१५१	सोपान मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	क	
१५२	स्वाभिमान नेपाल	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	क	
१५३	स्वास्थ्य सन्देश मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	क	
१५४	हाम्रो सम्पदा राष्ट्रिय मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	क	
१५५	हिमालिनी मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	क	
१५६	अक्षय अक्षर त्रैमासिक	मकवानपुर	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१५७	अन्तर्वाध त्रैमासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१५८	अभिव्यक्ति द्वैमासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१५९	कल्पतरु द्वैमासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१६०	कौशिकी द्वैमासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१६१	गरिमा मासिक	ललितपुर	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१६२	जनमत मासिक	काभ्रेपलाञ्चोक	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१६३	तन्नेरी द्वैमासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१६४	दायित्व द्वैमासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१६५	दोभान त्रैमासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१६६	नव प्रज्ञापन त्रैमासिक	बारा	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१६७	भानु मासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१६८	मधुपर्क मासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१६९	मृना मासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१७०	रचना द्वैमासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१७१	वनिता त्रैमासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१७२	वैजयन्ती द्वैमासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१७३	शब्द संयोजन मासिक,	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१७४	शाल्मलि मासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१७५	शिवपुरी सन्देश त्रैमासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१७६	सुलेख साहित्यिक मासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१७७	हाम्रो पुरुषार्थ त्रैमासिक	गुल्मी	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१७८	हाम्रो मातृभूमि	मकवानपुर	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१७९	हिमाली गुराँस द्वैमासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	क	
१८०	आदर्श समाज दैनिक	कास्की	दैनिक	क्षेत्रीय	क	
१८१	उदघोष दैनिक	मोरङ	दैनिक	क्षेत्रीय	क	

सि नं	पत्रिकाको नाम	जिल्ला	पत्रिकाको प्रकार	प्रकृति	वर्ग	कैफियत
१८२	कालपृष्ठ दैनिक	बाँके	दैनिक	क्षेत्रीय	क	
१८३	गणतन्त्र दैनिक	दाङ	दैनिक	क्षेत्रीय	क	
१८४	चितवनपोष्ट दैनिक	चितवन	दैनिक	क्षेत्रीय	क	
१८५	ढोरपाटन दैनिक	बाग्लुङ	दैनिक	क्षेत्रीय	क	
१८६	दैनिक नेपालगञ्ज	बाँके	दैनिक	क्षेत्रीय	क	
१८७	धनगढीपोष्ट नेपाली दैनिक	कैलाली	दैनिक	क्षेत्रीय	क	
१८८	पश्चिम टुडे दैनिक	कैलाली	दैनिक	क्षेत्रीय	क	
१८९	पारदर्शी दैनिक	चितवन	दैनिक	क्षेत्रीय	क	
१९०	पूर्वसन्देश दैनिक	झापा	दैनिक	क्षेत्रीय	क	
१९१	पूर्वाञ्चल दैनिक	झापा	दैनिक	क्षेत्रीय	क	
१९२	पोखरापत्र दैनिक	कास्की	दैनिक	क्षेत्रीय	क	
१९३	प्रतिदिन दैनिक	झापा	दैनिक	क्षेत्रीय	क	
१९४	बुद्धदर्पण दैनिक	कपिलबस्तु	दैनिक	क्षेत्रीय	क	
१९५	ब्लाष्ट टाइम्स दैनिक	सुनसरी	दैनिक	क्षेत्रीय	क	
१९६	राप्ती पोष्ट दैनिक	दाङ	दैनिक	क्षेत्रीय	क	
१९७	लोकतन्त्र पोष्ट दैनिक	झापा	दैनिक	क्षेत्रीय	क	
१९८	समाधान राष्ट्रिय दैनिक	कास्की	दैनिक	क्षेत्रीय	क	
१९९	हाम्रो नयाँ नेपाल दैनिक	सुर्खेत	दैनिक	क्षेत्रीय	क	
२००	हिमदूत दैनिक	कास्की	दैनिक	क्षेत्रीय	क	
२०१	हेटौडा सन्देश राष्ट्रिय दैनिक	मकवानपुर	दैनिक	क्षेत्रीय	क	
२०२	अभियान टाइम्स	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२०३	अभियान साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२०४	गोरखा एक्सप्रेस	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२०५	चेष्टा साप्ताहिक	काभ्रेपलान्चोक	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२०६	जनआवाहन साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२०७	जनप्रहार साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२०८	जनविश्वास साप्ताहिक	धनकुटा	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२०९	जानकारी साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२१०	ताजा खबर साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२११	त्रिशुली प्रवाह साप्ताहिक	नुवाकोट	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२१२	दामनपोष्ट साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२१३	दिव्य दर्शन साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२१४	देश विकास साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२१५	धनकुटा साप्ताहिक	धनकुटा	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२१६	नयाँ विमर्श साप्ताहिक	भक्तपुर	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२१७	नवजनप्रहार साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२१८	पिपुल्स रिभ्यू साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२१९	बुद्ध आवाज साप्ताहिक	कपिलबस्तु	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२२०	महिमा साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२२१	मूलधार साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२२२	युगब्यथा साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२२३	युगसम्वाद साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२२४	युनाइटेडपोष्ट साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२२५	राष्ट्रवाणी साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२२६	रिभ्यू नेपाल	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२२७	रेसुंगा टुडे साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	

सि नं	पत्रिकाको नाम	जिल्ला	पत्रिकाको प्रकार	प्रकृति	वर्ग	कैफियत
२२८	रौतहट टाइम्स साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२२९	समयबद्ध साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२३०	सम्बोधन साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२३१	सिन्धु प्रवाह साप्ताहिक	सिन्धुपाल्चोक	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२३२	आर्थिक बजार मासिक	काठमाडौं	मासिक	क्षेत्रीय	क	
२३३	ग्रेट वे मासिक	काठमाडौं	मासिक	क्षेत्रीय	क	
२३४	छुर्योर्तन मासिक	काठमाडौं	मासिक	क्षेत्रीय	क	
२३५	नवीन सन्देश मासिक	काठमाडौं	मासिक	क्षेत्रीय	क	
२३६	नेहा मासिक	काठमाडौं	मासिक	क्षेत्रीय	क	
२३७	पुस्तकालय आवाज मासिक	काठमाडौं	मासिक	क्षेत्रीय	क	
२३८	पूर्ण मासिक	काठमाडौं	मासिक	क्षेत्रीय	क	
२३९	अन्तर्द्वनी त्रैमासिक	दाङ	साहित्यिक	क्षेत्रीय	क	
२४०	गुगुल्डी मासिक	कञ्चनपुर	साहित्यिक	क्षेत्रीय	क	
२४१	तामाङ डाजाग मासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	क्षेत्रीय	क	
२४२	बुङ्वाखा मासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	क्षेत्रीय	क	
२४३	लहरा साहित्यिक त्रैमासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	क्षेत्रीय	क	
२४४	नेपालीपत्र साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	क	
२४५	अंकुश दैनिक	पर्सा	दैनिक	स्थानीय	ख	
२४६	ऋतम्भरा राष्ट्रिय दैनिक	बाँके	दैनिक	स्थानीय	ख	
२४७	कृपा दैनिक	बारा	दैनिक	स्थानीय	ख	
२४८	खप्तड न्युज दैनिक,	अछाम	दैनिक	स्थानीय	ख	
२४९	ग्रीन मधेश दैनिक	सप्तरी	दैनिक	स्थानीय	ख	
२५०	झापापोष्ट दैनिक	झापा	दैनिक	स्थानीय	ख	
२५१	टिकापुर दैनिक	कैलाली	दैनिक	स्थानीय	ख	
२५२	डडेलधुरा पोष्ट दैनिक	डडेलधुरा	दैनिक	स्थानीय	ख	
२५३	तराई टाइम्स दैनिक	धनुषा	दैनिक	स्थानीय	ख	
२५४	त्रियुगा एकसप्रेस दैनिक	उदयपुर	दैनिक	स्थानीय	ख	
२५५	नटखट दैनिक	सप्तरी	दैनिक	स्थानीय	ख	
२५६	नवजनचेतना दैनिक	पाल्पा	दैनिक	स्थानीय	ख	
२५७	नवसंग्राम दैनिक	सिराहा	दैनिक	स्थानीय	ख	
२५८	न्यु कालीगण्डकी दैनिक	पर्वत	दैनिक	स्थानीय	ख	
२५९	न्युजपेपर दैनिक	धनुषा	दैनिक	स्थानीय	ख	
२६०	पर्दाफास दैनिक	पर्सा	दैनिक	स्थानीय	ख	
२६१	पूर्वीहटलाइन दैनिक	सुनसरी	दैनिक	स्थानीय	ख	
२६२	पोखरा हटलाइन दैनिक	कास्की	दैनिक	स्थानीय	ख	
२६३	प्रतिक्षण दैनिक	सुनसरी	दैनिक	स्थानीय	ख	
२६४	प्रभात घोषणा दैनिक	बाँके	दैनिक	स्थानीय	ख	
२६५	प्रभात समाचार दैनिक	सिन्धुली	दैनिक	स्थानीय	ख	
२६६	फार वेस्ट टाइम्स दैनिक	कञ्चनपुर	दैनिक	स्थानीय	ख	
२६७	भोजपुरी टाइम्स दैनिक	पर्सा	दैनिक	स्थानीय	ख	
२६८	मर्निङ बेल दैनिक	कैलाली	दैनिक	स्थानीय	ख	
२६९	मुक्तिक्षेत्र दैनिक	बाग्लुङ	दैनिक	स्थानीय	ख	
२७०	राजविराज टुडे	सप्तरी	दैनिक	स्थानीय	ख	
२७१	लमजुङ दर्पण दैनिक	लमजुङ	दैनिक	स्थानीय	ख	
२७२	लोकतन्त्र सन्देश दैनिक	चितवन	दैनिक	स्थानीय	ख	
२७३	लोकप्रिय सन्देश दैनिक	बाँके	दैनिक	स्थानीय	ख	

सि नं	पत्रिकाको नाम	जिल्ला	पत्रिकाको प्रकार	प्रकृति	वर्ग	कैफियत
२७४	संस्कार खबर दैनिक	बारा	दैनिक	स्थानीय	ख	
२७५	सञ्चारपत्र दैनिक	चितवन	दैनिक	स्थानीय	ख	
२७६	सन्ध्याकालीन दैनिक	काठमाडौं	दैनिक	स्थानीय	ख	
२७७	समय अधिकार	बाँके	दैनिक	स्थानीय	ख	
२७८	समृद्धि समाज दैनिक	मकवानपुर	दैनिक	स्थानीय	ख	
२७९	साँझको सिटीटाइम्स सन्ध्याकालीन	काठमाडौं	दैनिक	स्थानीय	ख	
२८०	साझेदारी दैनिक	बारा	दैनिक	स्थानीय	ख	
२८१	सुरुवात दैनिक	गोरखा	दैनिक	स्थानीय	ख	
२८२	सुर्खेत पहिचान दैनिक	सुर्खेत	दैनिक	स्थानीय	ख	
२८३	सुर्खेतपत्र दैनिक	सुर्खेत	दैनिक	स्थानीय	ख	
२८४	सेतिमादी दैनिक	तनहुँ	दैनिक	स्थानीय	ख	
२८५	हाइवे न्युज दैनिक	रौतहट	दैनिक	स्थानीय	ख	
२८६	हाम्रो कर्णाली खबर दैनिक	कालिकोट	दैनिक	स्थानीय	ख	
२८७	जनमत अर्ध-साप्ताहिक	बाँके	अर्ध-साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
२८८	अखबार साप्ताहिक	मकवानपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
२८९	अग्रता साप्ताहिक	चितवन	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
२९०	अनमोलमणि साप्ताहिक	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
२९१	अन्तरदृष्टी सन्देश साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
२९२	अप्सरा साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
२९३	अभिभारा साप्ताहिक	कालिकोट	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
२९४	अर्को आँखा साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
२९५	अर्थ विट साप्ताहिक	पर्वत	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
२९६	अर्थ समाचार साप्ताहिक	चितवन	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
२९७	अवधारणा साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
२९८	अविचल साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
२९९	आँधिखोला एक्सप्रेस साप्ताहिक	स्याङ्जा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३००	आजको सामना साप्ताहिक	बाँके	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३०१	आरसी टाइम्स साप्ताहिक	कास्की	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३०२	आहा सञ्चार साप्ताहिक	रुकुम	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३०३	इमेज साप्ताहिक	नुवाकोट	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३०४	इलाम आवाज साप्ताहिक	इलाम	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३०५	उज्वल भविष्य साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३०६	एकहप्ते एक्शनटाइम्स साप्ताहिक	सुनसरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३०७	कन्काई साप्ताहिक	झापा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३०८	कन्चनरूप साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३०९	कमलामाई एक्सप्रेस साप्ताहिक	सिन्धुली	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३१०	करेन्टपोष्ट साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३११	कलैया टूडे साप्ताहिक	बारा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३१२	कान्तिपथ साप्ताहिक	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३१३	काभ्रे सन्देश साप्ताहिक	काभ्रेपलाञ्चोक	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३१४	कालिञ्चोक सन्देश साप्ताहिक	दोलखा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३१५	किरण साप्ताहिक	बाँके	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३१६	कीर्तिपुर दर्पण साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३१७	कीर्तिपुर सन्देश	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३१८	क्यासमिरी साप्ताहिक	तनहुँ	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३१९	क्राइम चेक साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	

सि नं	पत्रिकाको नाम	जिल्ला	पत्रिकाको प्रकार	प्रकृति	वर्ग	कैफियत
३२०	क्रेजी डटकम साप्ताहिक	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३२१	खबरमंच साप्ताहिक	झापा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३२२	खोटाङखबर साप्ताहिक	खोटाङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३२३	गलकोटपत्र साप्ताहिक	बाग्लुङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३२४	गल्याङ पोष्ट साप्ताहिक	स्याङ्जा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३२५	गहवा साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३२६	गडन्यूज साप्ताहिक	बाँके	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३२७	गोदावरीपोष्ट साप्ताहिक	ललितपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३२८	चितवन सन्देश साप्ताहिक	चितवन	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३२९	चित्रण साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३३०	चिन्तनशील साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३३१	जन आवाज साप्ताहिक	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३३२	जनअर्पण साप्ताहिक	नवलपरासी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३३३	जनआकांक्षा साप्ताहिक	रोल्पा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३३४	जनआकांक्षा साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३३५	जनकपुर वाणी साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३३६	जनजनविश्वास एक्सप्रेस	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३३७	जनजाती साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३३८	जनता टाइम्स साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३३९	जनप्रतिरोध साप्ताहिक	काभ्रेपलाञ्चोक	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३४०	जनवादी आवाज साप्ताहिक	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३४१	जनसूचना साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३४२	जनसौगात साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३४३	जुनकीरी सञ्चार साप्ताहिक	रोल्पा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३४४	जोश साप्ताहिक	चितवन	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३४५	ज्वजलपा साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३४६	तीर साप्ताहिक	काभ्रेपलाञ्चोक	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३४७	त्रिशुली आवाज साप्ताहिक	नुवाकोट	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३४८	त्रिशुली खबर साप्ताहिक	नुवाकोट	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३४९	थाहा दर्शन साप्ताहिक	मकवानपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३५०	द थर्ड आइ साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३५१	द पब्लिक ब्लाष्ट साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३५२	दमौली एक्सप्रेस साप्ताहिक	तनहुँ	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३५३	दि पब्लिक मेमो साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३५४	दि यंग गाइज साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३५५	दुहबी टाइम्स साप्ताहिक	सुनसरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३५६	दूधमती साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३५७	देश दर्शन साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३५८	देशरक्षा साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३५९	नब विचार साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३६०	नमस्ते बिहानी साप्ताहिक	चितवन	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३६१	नयाँ बिस्फोट साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३६२	नयाँ संचार दर्शन साप्ताहिक	काभ्रेपलाञ्चोक	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३६३	नयाँखबर कागज साप्ताहिक	सङ्खुवासभा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३६४	नव अनमोल टाइम्स साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३६५	नव क्षितिज साप्ताहिक	काभ्रेपलाञ्चोक	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	

सि नं	पत्रिकाको नाम	जिल्ला	पत्रिकाको प्रकार	प्रकृति	वर्ग	कैफियत
३६६	नव जनक्रान्ति साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३६७	नवपथ साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३६८	नवविकल्प साप्ताहिक	म्याग्दी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३६९	नवशक्ति साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३७०	नवीन साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३७१	नुवाकोट पुकार साप्ताहिक	नुवाकोट	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३७२	नुवाकोट सन्देश साप्ताहिक	नुवाकोट	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३७३	नेपाल टाइगर साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३७४	नेसनल पोष्ट साप्ताहिक	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३७५	नौलो आवाज साप्ताहिक	झापा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३७६	न्यु हाई वे साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३७७	न्यू सिजन साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३७८	न्यू स्वर्णिम सन्ध्या साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३७९	न्यूज अफ साप्ताहिक	भक्तपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३८०	न्यूज यथार्थ साप्ताहिक	बाँके	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३८१	पतञ्जली योग साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३८२	पथ-प्रदर्शक साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३८३	पपुलर न्यूज साप्ताहिक	सुनसरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३८४	पब्लिक आवाज साप्ताहिक	स्याङ्जा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३८५	पब्लिक टाइम्स साप्ताहिक	पाचथर	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३८६	परिघटना	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३८७	पलाञ्चोक साप्ताहिक	काभ्रेपलाञ्चोक	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३८८	पाख्रिबास साप्ताहिक	सङ्खुवासभा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३८९	पिपुल्स वीकली साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३९०	पुष्पदृष्टि साप्ताहिक	रामेछाप	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३९१	पूर्णपुष्टि साप्ताहिक	उदयपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३९२	पूर्वटाइम्स साप्ताहिक	सुनसरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३९३	पैगाम साप्ताहिक	सिराहा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३९४	प्रकाश साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३९५	फलेबास साप्ताहिक	पर्वत	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३९६	बबई साप्ताहिक	बर्दिया	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३९७	बयान साप्ताहिक	भक्तपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३९८	बरुण साप्ताहिक	झापा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
३९९	बहुविचार साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४००	बाघबकरी साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४०१	बारा दर्पण साप्ताहिक	बारा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४०२	बिहानी सन्देश साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४०३	बिहानीको तारा साप्ताहिक	जुम्ला	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४०४	भिजन नेपाल साप्ताहिक	ओखलढुङ्गा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४०५	भूमिका साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४०६	भेल साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४०७	मधेश खबर साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४०८	मधेश टाइम्स साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४०९	मधेश स्पेशल साप्ताहिक	सिराहा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४१०	मध्यमार्ग साप्ताहिक	काभ्रेपलाञ्चोक	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४११	मध्यस्थता साप्ताहिक	मकवानपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	

सि नं	पत्रिकाको नाम	जिल्ला	पत्रिकाको प्रकार	प्रकृति	वर्ग	कैफियत
४१२	महाप्रतिवाद साप्ताहिक	सुनसरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४१३	माझखर्क साप्ताहिक	उदयपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४१४	माण्डवी साप्ताहिक	प्युठान	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४१५	मातृवाणी साप्ताहिक	सिराहा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४१६	मिथिला जागरण साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४१७	मिथिला साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४१८	मिसन न्युज साप्ताहिक	कालिकोट	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४१९	म्याग्दी संचार साप्ताहिक	म्याग्दी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४२०	युग पुकार साप्ताहिक	महोत्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४२१	युवा जनप्रिय साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४२२	रंगुन दर्पण साप्ताहिक	डडेलधुरा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४२३	राजधानी आस्था साप्ताहिक	चितवन	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४२४	राजविराज सन्देश	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४२५	राजापुर टाइम्स साप्ताहिक	बर्दिया	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४२६	रुपाकोट खबरपत्रिका साप्ताहिक	खोटाङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४२७	रेखदेख साप्ताहिक	रुकुम	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४२८	रोल्पा समाचार साप्ताहिक	रोल्पा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४२९	रोशी साप्ताहिक	काभ्रेपलाञ्चोक	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४३०	लमजुङ आवाज साप्ताहिक	लमजुङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४३१	लहना साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४३२	लोकपुकार साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४३३	लोकप्रवाह साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४३४	लौब अगासन साप्ताहिक	दाङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४३५	विजयपुर साप्ताहिक	सुनसरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४३६	विश्व आवाज साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४३७	वीरजंग कलेक्सन साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४३८	श्री सत्यापन साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४३९	सञ्चार दृष्टि साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४४०	सतासी साप्ताहिक	झापा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४४१	सती कर्णाली साप्ताहिक	कैलाली	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४४२	सत्य संयन्त्र साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४४३	सदाये आम साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४४४	सनस्टार साप्ताहिक	रोल्पा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४४५	सप्तरी जागरण साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४४६	समृद्ध साप्ताहिक	म्याग्दी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४४७	सम्पदा आँचल	सुनसरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४४८	सर्बब्यापक साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४४९	सहीखबर साप्ताहिक	मकवानपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४५०	साप्ताहिक चितवन	चितवन	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४५१	साप्ताहिक समाचार	झापा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४५२	सामर्थ्य साप्ताहिक	नवलपरासी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४५३	सिन्धु जागरण साप्ताहिक	सिन्धुपाल्चोक	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४५४	सूचनापत्र साप्ताहिक	दाङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४५५	सुदामा साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४५६	सुदूर पश्चिमपोष्ट साप्ताहिक	कञ्चनपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४५७	सुदूरसन्दर्भ साप्ताहिक	कैलाली	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	

सि नं	पत्रिकाको नाम	जिल्ला	पत्रिकाको प्रकार	प्रकृति	वर्ग	कैफियत
४५८	सुदूरपश्चिमको प्रयास साप्ताहिक	कैलाली	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४५९	सुपूर्व मालिका साप्ताहिक	झापा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४६०	सूचना र संचार साप्ताहिक	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४६१	सूचना साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४६२	स्टार एक्सप्रेस साप्ताहिक	भक्तपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४६३	स्मारिका खबर साप्ताहिक	रामेछाप	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४६४	स्याङ्जा सन्देश साप्ताहिक	स्याङ्जा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४६५	स्वतन्त्र विराट साप्ताहिक	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४६६	स्वतन्त्र सञ्चारग्राम साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४६७	स्वर्णिम सन्देश	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४६८	स्वाधीन सम्बाद साप्ताहिक	झापा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४६९	स्वालम्बी साप्ताहिक	बारा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४७०	हर्षित नेपाल साप्ताहिक	सिराहा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४७१	हाम्रो इन्द्रावती साप्ताहिक	काभ्रेपलाञ्चोक	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४७२	हाम्रो कोशी आवाज साप्ताहिक	सुनसरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४७३	हाम्रो खबर साप्ताहिक	उदयपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४७४	हाम्रो नयाँसंसार साप्ताहिक	सुनसरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४७५	हाम्रो बेलका साप्ताहिक	उदयपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४७६	हिन्दुकुश साप्ताहिक	डडेल्धुरा	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४७७	हिमकिरण साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४७८	हिमाली आवाज साप्ताहिक	कास्की	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४७९	हेटौंडा टाइम्स साप्ताहिक	मकवानपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४८०	हेटौंडा खबरपत्र साप्ताहिक	मकवानपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ख	
४८१	एजुकेशन भ्वाइस मासिक	भक्तपुर	मासिक	स्थानीय	ख	
४८२	कृषि जर्नल मासिक	काठमाडौं	मासिक	स्थानीय	ख	
४८३	पूर्वाञ्चल दर्पण मासिक	मोरङ	मासिक	स्थानीय	ख	
४८४	लुँ आखः मासिक	काठमाडौं	मासिक	स्थानीय	ख	
४८५	वतन मासिक	धनुषा	मासिक	स्थानीय	ख	
४८६	सहीबाटो मासिक	काठमाडौं	मासिक	स्थानीय	ख	
४८७	सिन्धु यात्रा मासिक	सिन्धुपाल्चोक	मासिक	स्थानीय	ख	
४८८	कदर पाक्षिक	काठमाडौं	पाक्षिक	स्थानीय	ख	
४८९	परेवा पाक्षिक पत्रिका	पाल्पा	पाक्षिक	स्थानीय	ख	
४९०	पेजथ्री पाक्षिक	काठमाडौं	पाक्षिक	स्थानीय	ख	
४९१	लायक् पाक्षिक	काठमाडौं	पाक्षिक	स्थानीय	ख	
४९२	संसाक पाक्षिक	काठमाडौं	पाक्षिक	स्थानीय	ख	
४९३	आगाज त्रैमासिक	धनुषा	त्रैमासिक	स्थानीय	ख	
४९४	प्राप्ति त्रैमासिक	कास्की	त्रैमासिक	स्थानीय	ख	
४९५	संकल्प यात्रा त्रैमासिक	काठमाडौं	त्रैमासिक	स्थानीय	ख	
४९६	समुदाय र सृजना त्रैमासिक	पर्वत	त्रैमासिक	स्थानीय	ख	
४९७	स्वाधीन खबरपत्रिका त्रैमासिक प्रवर्धन	सिन्धुली	त्रैमासिक	स्थानीय	ख	
४९८	गोलसिमल मासिक	सर्लाही	साहित्यिक	स्थानीय	ख	
४९९	हरचाली साप्ताहिक त्रैमासिक	कैलाली	साहित्यिक	स्थानीय	ख	
५००	थौकन्हय मासिक	भक्तपुर	साहित्यिक	स्थानीय	ख	
५०१	नवमाधुरी त्रैमासिक	पर्वत	साहित्यिक	स्थानीय	ख	
५०२	जनकपुर टुडे दैनिक	धनुषा	दैनिक	राष्ट्रिय	ख	
५०३	नबतिलोतमा दैनिक	रुपन्देही	दैनिक	राष्ट्रिय	ख	

सि नं	पत्रिकाको नाम	जिल्ला	पत्रिकाको प्रकार	प्रकृति	वर्ग	कैफियत
५०४	इन्द्रेणी साप्ताहिक	ललितपुर	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	ख	
५०५	क्षेप्यास्त्र साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	ख	
५०६	चर्चा साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	ख	
५०७	जनजिब्रो साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	ख	
५०८	डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	ख	
५०९	द वीकली मिरर साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	ख	
५१०	नेपालभूमि साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	ख	
५११	न्यु टाइम्स अफ नेपाल साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	ख	
५१२	राजतिलक साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	ख	
५१३	वर्गदृष्टि साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	ख	
५१४	श्रमिक साप्ताहिक	भक्तपुर	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	ख	
५१५	सत्याग्रह साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	ख	
५१६	समय समाज साप्ताहिक	भक्तपुर	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	ख	
५१७	अग्निचक्र राष्ट्रिय मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	ख	
५१८	कृषक र प्रबिधि मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	ख	
५१९	गोरक्ष निखिलवाणी मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	ख	
५२०	चाणक्य मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	ख	
५२१	जनआर्थिक संसार मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	ख	
५२२	नवनारी मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	ख	
५२३	नुवागी मासिक	भक्तपुर	मासिक	राष्ट्रिय	ख	
५२४	न्यूजमाडौं मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	ख	
५२५	न्हू प्रेस्टीज नेपा मासिक	ललितपुर	मासिक	राष्ट्रिय	ख	
५२६	प्रशासनिक सुधार मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	ख	
५२७	मानवाधिकार सन्देश मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	ख	
५२८	मिलाप मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	ख	
५२९	राष्ट्रिय आर्थिक मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	ख	
५३०	लिभिड विथ आइसीटी मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	ख	
५३१	लोकलय मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	ख	
५३२	विमोचन मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	ख	
५३३	सकारात्मक लक्ष्य मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	ख	
५३४	सहकारी नेपाल मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	ख	
५३५	हेल्थटुडे मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	ख	
५३६	जनप्रशासन पाक्षिक	काठमाडौं	पाक्षिक	राष्ट्रिय	ख	
५३७	न्यु स्पट लाइट पाक्षिक	काठमाडौं	पाक्षिक	राष्ट्रिय	ख	
५३८	विजनेश प्लस पाक्षिक	काठमाडौं	पाक्षिक	राष्ट्रिय	ख	
५३९	सहारा टाइम्स पाक्षिक	काठमाडौं	पाक्षिक	राष्ट्रिय	ख	
५४०	चलानी द्वैमासिक	चितवन	द्वैमासिक	राष्ट्रिय	ख	
५४१	फरकपत्र द्वैमासिक	काठमाडौं	द्वैमासिक	राष्ट्रिय	ख	
५४२	कपन-बानेश्वर सा. साप्ताहिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	ख	
५४३	कलानिधि त्रैमासिक	ललितपुर	साहित्यिक	राष्ट्रिय	ख	
५४४	गौरी मासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	ख	
५४५	ज्याग्दी खोलाको तरङ्ग त्रैमासिक	स्याङ्जा	साहित्यिक	राष्ट्रिय	ख	
५४६	रातो लालटिन त्रैमासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	ख	
५४७	शारदा मासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	ख	
५४८	सितिमि मासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	ख	
५४९	हाम्रो पूर्णिमा त्रैमासिक	बाँके	साहित्यिक	राष्ट्रिय	ख	

सि नं	पत्रिकाको नाम	जिल्ला	पत्रिकाको प्रकार	प्रकृति	वर्ग	कैफियत
५५०	अभियान नेपाली दैनिक	कञ्चनपुर	दैनिक	क्षेत्रीय	ख	
५५१	कायाकैरन दैनिक	चितवन	दैनिक	क्षेत्रीय	ख	
५५२	कृष्णा दैनिक	सप्तरी	दैनिक	क्षेत्रीय	ख	
५५३	कैलाली दैनिक	कैलाली	दैनिक	क्षेत्रीय	ख	
५५४	जनसरोकारपोष्ट दैनिक	कञ्चनपुर	दैनिक	क्षेत्रीय	ख	
५५५	तराइ एक्सप्रेस दैनिक	रौतहट	दैनिक	क्षेत्रीय	ख	
५५६	दर्शन दैनिक	मोरङ	दैनिक	क्षेत्रीय	ख	
५५७	न्युज टुडे दैनिक	सप्तरी	दैनिक	क्षेत्रीय	ख	
५५८	न्यू सृष्टि दैनिक	मोरङ	दैनिक	क्षेत्रीय	ख	
५५९	पोखरा आवाज दैनिक	कास्की	दैनिक	क्षेत्रीय	ख	
५६०	मजदूर दैनिक	भक्तपुर	दैनिक	क्षेत्रीय	ख	
५६१	मिथिला डटकम दैनिक	धनुषा	दैनिक	क्षेत्रीय	ख	
५६२	मोर्निंग टाइम्स दैनिक	सुनसरी	दैनिक	क्षेत्रीय	ख	
५६३	युग आब्हान दैनिक	सुर्खेत	दैनिक	क्षेत्रीय	ख	
५६४	विवेचना दैनिक	झापा	दैनिक	क्षेत्रीय	ख	
५६५	सदभाव दैनिक	बाँके	दैनिक	क्षेत्रीय	ख	
५६६	सुन्दराञ्चल दैनिक	कैलाली	दैनिक	क्षेत्रीय	ख	
५६७	अमृत बजार साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५६८	आलोचना साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५६९	कपिलवस्तु दर्पण साप्ताहिक	कपिलवस्तु	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५७०	काभ्रे टाइम्स साप्ताहिक	काभ्रेपलाञ्चोक	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५७१	काभ्रे पोष्ट साप्ताहिक	काभ्रेपलाञ्चोक	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५७२	खस्यौली साप्ताहिक	रुपन्देही	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५७३	गोलमेच साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५७४	छहरा साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५७५	जनज्योति साप्ताहिक	झापा	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५७६	जनप्रभाव साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५७७	जनसञ्जाल साप्ताहिक	धादिङ	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५७८	ठोक्शिला दर्पण साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५७९	डेमोक्रेसी खबर साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५८०	द नेपाल विकली	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५८१	दबाब साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५८२	देश राष्ट्रिय साप्ताहिक	भक्तपुर	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५८३	देशप्रेम साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५८४	नयाँ प्रकाश साप्ताहिक	ललितपुर	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५८५	प्रवर्धन साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५८६	बराह साप्ताहिक	सुनसरी	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५८७	बिषे खबर साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५८८	मेचीखबर साप्ताहिक	झापा	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५८९	रहस्य साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५९०	रोडम्याप साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५९१	विजय खबर साप्ताहिक	नवलपरासी	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५९२	विद्युत संसार साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५९३	विश्लेषण साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५९४	विश्वस्तसूत्र साप्ताहिक	सुनसरी	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५९५	सगरमाथा आवाज साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	

सि नं	पत्रिकाको नाम	जिल्ला	पत्रिकाको प्रकार	प्रकृति	वर्ग	कैफियत
५९६	सबल नेपाल साप्ताहिक	रुपन्देही	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५९७	सराइकोट साप्ताहिक	कास्की	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५९८	साझा न्युज साप्ताहिक	कपिलबस्तु	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
५९९	प्रतिस्पर्धा साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ख	
६००	अर्थ डबली मासिक	काठमाडौं	मासिक	क्षेत्रीय	ख	
६०१	क्रसचेक मासिक	काठमाडौं	मासिक	क्षेत्रीय	ख	
६०२	तान्छोप्पा मासिक	ललितपुर	मासिक	क्षेत्रीय	ख	
६०३	न्यु विजनेस एज मासिक	काठमाडौं	मासिक	क्षेत्रीय	ख	
६०४	पोखराया भिन्तुना मासिक	कास्की	मासिक	क्षेत्रीय	ख	
६०५	प्रशासनिक मासिक	काठमाडौं	मासिक	क्षेत्रीय	ख	
६०६	मन्धुम मासिक	काठमाडौं	मासिक	क्षेत्रीय	ख	
६०७	युनिटी भ्वाइस मासिक	काठमाडौं	मासिक	क्षेत्रीय	ख	
६०८	रिभोसाईन्स मासिक	काठमाडौं	मासिक	क्षेत्रीय	ख	
६०९	लालयुग मासिक	ललितपुर	मासिक	क्षेत्रीय	ख	
६१०	लोकतन्त्र नेपाल	काठमाडौं	मासिक	क्षेत्रीय	ख	
६११	पोखरा एक्सप्रेस पाक्षिक	कास्की	पाक्षिक	क्षेत्रीय	ख	
६१२	सुदूर चिनारी द्वैमासिक	कैलाली	द्वैमासिक	क्षेत्रीय	ख	
६१३	युवा गर्जन त्रैमासिक	दाङ	त्रैमासिक	क्षेत्रीय	ख	
६१४	अक्षरमार्ग त्रैमासिक	काभ्रेपलाञ्चोक	साहित्यिक	क्षेत्रीय	ख	
६१५	लोकभावना त्रैमासिक	मकवानपुर	साहित्यिक	क्षेत्रीय	ख	
६१६	संगम अभियान मासिक	मोरङ	साहित्यिक	क्षेत्रीय	ख	
६१७	ग्रेट मिसन त्रैमासिक	चितवन	त्रैमासिक	स्थानीय	ग	
६१८	सन्ध्याकालीन आकांक्षा दैनिक	धनुषा	दैनिक	स्थानीय	ग	
६१९	थाहा सन्देश दैनिक	मकवानपुर	दैनिक	स्थानीय	ग	
६२०	वर्णमाला दैनिक	सुनसरी	दैनिक	स्थानीय	ग	
६२१	रामारोशन दैनिक	अछाम	दैनिक	स्थानीय	ग	
६२२	इलाम एक्सप्रेस दैनिक	इलाम	दैनिक	स्थानीय	ग	
६२३	कैलाली हटलाइन दैनिक	कैलाली	दैनिक	स्थानीय	ग	
६२४	इलामपोष्ट दैनिक	इलाम	दैनिक	स्थानीय	ग	
६२५	बरुवा टाइम्स दैनिक	उदयपुर	दैनिक	स्थानीय	ग	
६२६	जनसृष्टि दैनिक	पर्सा	दैनिक	स्थानीय	ग	
६२७	प्रतिफल दैनिक	पर्सा	दैनिक	स्थानीय	ग	
६२८	ब्रम्हास्त्र दैनिक	पर्सा	दैनिक	स्थानीय	ग	
६२९	रुप्से दैनिक	म्याग्दी	दैनिक	स्थानीय	ग	
६३०	मलवारा दैनिक	कैलाली	दैनिक	स्थानीय	ग	
६३१	कालान्तर दैनिक	कैलाली	दैनिक	स्थानीय	ग	
६३२	हाम्रो समाचार दैनिक	बाँके	दैनिक	स्थानीय	ग	
६३३	प्रदेश दैनिक	मकवानपुर	दैनिक	स्थानीय	ग	
६३४	प्रादेशिक खबर दैनिक	तनहुँ	दैनिक	स्थानीय	ग	
६३५	कर्णाली सरोकार दैनिक	जुम्ला	दैनिक	स्थानीय	ग	
६३६	जनकपुर एक्सप्रेस दैनिक	धनुषा	दैनिक	स्थानीय	ग	
६३७	लोक टाइम्स	पर्सा	दैनिक	स्थानीय	ग	
६३८	सर्बराष्ट्रिय दैनिक	पर्सा	दैनिक	स्थानीय	ग	
६३९	द पब्लिक टुडे दैनिक	महोत्तरी	दैनिक	स्थानीय	ग	
६४०	श्रीजन आक्रोश दैनिक	सप्तरी	दैनिक	स्थानीय	ग	
६४१	सिन्धुली साँगात राष्ट्रिय दैनिक	सिन्धुली	दैनिक	स्थानीय	ग	

सि नं	पत्रिकाको नाम	जिल्ला	पत्रिकाको प्रकार	प्रकृति	वर्ग	कैफियत
६४२	लोकवाणी दैनिक	तनहुँ	दैनिक	स्थानीय	ग	
६४३	दार्चुला सन्देश दैनिक	दार्चुला	दैनिक	स्थानीय	ग	
६४४	धमाका दैनिक	दैलेख	दैनिक	स्थानीय	ग	
६४५	कल्याणपोष्ट दैनिक	सप्तरी	दैनिक	स्थानीय	ग	
६४६	दिव्यसन्देश द्वैमासिक	काठमाडौं	द्वैमासिक	स्थानीय	ग	
६४७	ज्ञानपुञ्ज द्वैमासिक	काठमाडौं	द्वैमासिक	स्थानीय	ग	
६४८	म्युजिक खबर पाक्षिक	काठमाडौं	पाक्षिक	स्थानीय	ग	
६४९	नयाँ सत्मार्ग मासिक	काठमाडौं	मासिक	स्थानीय	ग	
६५०	अटुट मासिक पत्रिका	दाङ	मासिक	स्थानीय	ग	
६५१	अध्यात्म जागरण मासिक	धनुषा	मासिक	स्थानीय	ग	
६५२	बालआस्था मासिक	काठमाडौं	मासिक	स्थानीय	ग	
६५३	बुद्धसन्देश साप्ताहिक	कपिलबस्तु	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६५४	समाज जागरण साप्ताहिक (नयाँ)	बाँके	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६५५	क्राइम अपरेसन साप्ताहिक	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६५६	दिव्यदृष्टि साप्ताहिक	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६५७	रोल्पा खबर साप्ताहिक	रोल्पा	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६५८	सुनछहरी साप्ताहिक	रोल्पा	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६५९	लमजुङ रत्न साप्ताहिक	लमजुङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६६०	त्रियुगा टाइम्स साप्ताहिक	उदयपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६६१	एलर्ट साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६६२	विदेह साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६६३	नयाँ पाइलो साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६६४	हाम्रो समाज साप्ताहिक	भक्तपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६६५	शान्ति नेपाल साप्ताहिक	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६६६	छिन्नमस्ता साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६६७	हुँकार साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६६८	श्रीजनमत साप्ताहिक	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६६९	श्री सार्थक साप्ताहिक	कञ्चनपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६७०	जनप्रदर्शक साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६७१	हलेसी खबर पत्रिका साप्ताहिक	खोटाङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६७२	स्वर्ण खबर साप्ताहिक	चितवन	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६७३	भण्डाफोर अभियान	चितवन	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६७४	कर्णालीको सन्देश साप्ताहिक	जुम्ला	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६७५	हिमाली सुस्केरा साप्ताहिक (नयाँ)	डोल्पा	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६७६	खबरवाटिका साप्ताहिक	तनहुँ	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६७७	मध्य नेपाल सन्देश साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६७८	परिसूचन साप्ताहिक	बाग्लुङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६७९	जलेश्वर साप्ताहिक	महोत्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६८०	बुद्धवाणी साप्ताहिक	ललितपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६८१	बातचित साप्ताहिक	सिराहा	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६८२	चौदण्डीगढी साप्ताहिक	उदयपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६८३	अपटुडेट साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६८४	रामेछापपोष्ट साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६८५	काभ्रे प्रवाह साप्ताहिक	काभ्रेपलाञ्चोक	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६८६	बिर्ताज्योति साप्ताहिक	झापा	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६८७	धनुषा साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	

सि नं	पत्रिकाको नाम	जिल्ला	पत्रिकाको प्रकार	प्रकृति	वर्ग	कैफियत
६८८	हिमज्योति साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६८९	जनहित एक्सप्रेस	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६९०	मोदीकाली साप्ताहिक	पर्वत	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६९१	पाल्पा टाइम्स साप्ताहिक	पाल्पा	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६९२	अग्रसर साप्ताहिक	बाग्लुङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६९३	धौलागिरी स्टार साप्ताहिक	बाग्लुङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६९४	निजगढ समाचार साप्ताहिक	बारा	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६९५	राष्ट्रिय जनहित साप्ताहिक	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६९६	मधेश क्रान्ति साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६९७	मिसन मधेश साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६९८	सर्लाहीपोष्ट साप्ताहिक	सर्लाही	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
६९९	सुनसरी टाइम्स साप्ताहिक समाचार	सुनसरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७००	द एकसकलसिभ साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७०१	नयाँमार्ग साप्ताहिक	ललितपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७०२	स्वतन्त्र शक्ति साप्ताहिक	लमजुङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७०३	ब्यासश्री साप्ताहिक	तनहुँ	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७०४	दाउन्ने साप्ताहिक	नवलपरासी	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७०५	मिकलाजुं आवाज साप्ताहिक	पाचथर	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७०६	सिलिचुङ साप्ताहिक	भोजपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७०७	नमस्कार साप्ताहिक	मकवानपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७०८	ताम्सालीड काजी	मकवानपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७०९	बेनी साप्ताहिक	म्याग्दी	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७१०	लमजुङपत्र साप्ताहिक	लमजुङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७११	बलाहा साप्ताहिक	सुनसरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७१२	सगरमाथा खबर साप्ताहिक	उदयपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७१३	पूर्व क्षितिज साप्ताहिक	उदयपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७१४	मूलबाटो साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७१५	पुनरप्रयास साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७१६	चन्द्रकान्ता साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७१७	अग्नि साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७१८	शिरीष साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७१९	तराई जागरण साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७२०	क्राइम कन्ट्रोल साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७२१	थिमी टाइम्स साप्ताहिक	भक्तपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७२२	पञ्चधुरा साप्ताहिक	महोत्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७२३	बिराटनगर साप्ताहिक	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७२४	प्रतिरक्षा साप्ताहिक	रौतहट	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७२५	सप्तरी सन्देश साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७२६	छिन्नमस्ता हालचाल	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७२७	सर्लाही टाइम्स साप्ताहिक	सर्लाही	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७२८	अर्घाखाँची टाइम्स साप्ताहिक	अर्घाखाँची	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७२९	कालापानी पोष्ट साप्ताहिक	दार्चुला	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७३०	पूर्वाधार साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७३१	धौलागिरी सञ्चार साप्ताहिक	पर्वत	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७३२	महिला सञ्चार साप्ताहिक	बाँके	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	
७३३	हिमालयन टाइम्स साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	ग	

सि नं	पत्रिकाको नाम	जिल्ला	पत्रिकाको प्रकार	प्रकृति	वर्ग	कैफियत
७३४	सचेतना सञ्चार त्रैमासिक	काभ्रेपलाञ्चोक	साहित्यिक	स्थानीय	ग	
७३५	प्रक्षेपण दैनिक	भक्तपुर	दैनिक	राष्ट्रिय	ग	
७३६	सिटीपोष्ट दैनिक	काठमाडौं	दैनिक	राष्ट्रिय	ग	
७३७	लोकप्रिय समाचार	सिन्धुपाल्चोक	दैनिक	राष्ट्रिय	ग	
७३८	पश्चिम नेपाल दैनिक	कञ्चनपुर	दैनिक	क्षेत्रीय	ग	
७३९	अपि टुडे दैनिक	कञ्चनपुर	दैनिक	क्षेत्रीय	ग	
७४०	आजको नयाँ विकल्प दैनिक	कञ्चनपुर	दैनिक	क्षेत्रीय	ग	
७४१	आजको वातावरण	सप्तरी	दैनिक	क्षेत्रीय	ग	
७४२	हिल टाइम्स राष्ट्रिय दैनिक	डडेलधुरा	दैनिक	क्षेत्रीय	ग	
७४३	बिम्ब साप्ताहिक	डोटी	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ग	
७४४	टुरिजम टाइम्स पाक्षिक	काठमाडौं	पाक्षिक	क्षेत्रीय	ग	
७४५	प्रतिनिधि द्वैमासिक	काठमाडौं	द्वैमासिक	राष्ट्रिय	ग	
७४६	छात्र विचार(St. C.) द्वैमासिक	काठमाडौं	द्वैमासिक	राष्ट्रिय	ग	
७४७	निलो आकाश मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	ग	
७४८	हाम्रो मुक्तियात्रा राष्ट्रिय मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	ग	
७४९	मजुरा मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	ग	
७५०	प्रधानता त्रैमासिक	काठमाडौं	त्रैमासिक	राष्ट्रिय	ग	
७५१	जन आकाश साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	ग	
७५२	अर्पण साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	ग	
७५३	लावण्य सन्देश साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	ग	
७५४	सत्यापन साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	ग	
७५५	अक्षय ज्ञान मासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	ग	
७५६	चेतना सन्देश त्रैमासिक	मोरङ	साहित्यिक	राष्ट्रिय	ग	
७५७	नारीस्वर त्रैमासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	ग	
७५८	शब्दाडकुर मासिक	काठमाडौं	साहित्यिक	राष्ट्रिय	ग	
७५९	चम्पक मासिक	ललितपुर	मासिक	क्षेत्रीय	ग	
७६०	नई उम्मीद मासिक	सप्तरी	मासिक	क्षेत्रीय	ग	
७६१	समुन्नती मासिक	काठमाडौं	मासिक	क्षेत्रीय	ग	
७६२	छापामार राष्ट्रिय साप्ताहिक	रामेछाप	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ग	
७६३	जनप्रवाह साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ग	
७६४	तथ्य साप्ताहिक	महोत्तरी	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ग	
७६५	द युनिभर्सल टाइम्स साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ग	
७६६	देवदह साप्ताहिक	रुपन्देही	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ग	
७६७	नयाँ बिद्रोह साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	ग	
७६८	नव जनता साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ग	
७६९	नेपालीपन साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ग	
७७०	फिल्मीखबर साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ग	
७७१	मध्यदेश साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ग	
७७२	महोत्तरी साप्ताहिक	महोत्तरी	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ग	
७७३	युग सरोकार साप्ताहिक	कैलाली	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ग	
७७४	सिन्धुसंचार साप्ताहिक	सिन्धुपाल्चोक	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ग	
७७५	सुकुमदृष्टि साप्ताहिक	सुर्खेत	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	ग	
७७६	अपन दैनिक	सिराहा	दैनिक	स्थानीय	घ	
७७७	आजको जनपुकार दैनिक	सप्तरी	दैनिक	स्थानीय	घ	
७७८	औजार दैनिक	सुनसरी	दैनिक	स्थानीय	घ	
७७९	गोल्डेन न्यूज दैनिक	कास्की	दैनिक	स्थानीय	घ	

सि नं	पत्रिकाको नाम	जिल्ला	पत्रिकाको प्रकार	प्रकृति	वर्ग	कैफियत
७८०	डेली एक्सप्रेस दैनिक	धनुषा	दैनिक	स्थानीय	घ	
७८१	तहल्का डट नेपाल दैनिक	धनुषा	दैनिक	स्थानीय	घ	
७८२	दमौली खबर दैनिक	तनहुँ	दैनिक	स्थानीय	घ	
७८३	धादिङ आवाज दैनिक	धादिङ	दैनिक	स्थानीय	घ	
७८४	नयाँ सडक दैनिक	काठमाडौं	दैनिक	स्थानीय	ग	
७८५	निगरानी डटकम दैनिक	मोरङ	दैनिक	स्थानीय	घ	
७८६	न्यू मधेश एक्सप्रेस दैनिक	बाँके	दैनिक	स्थानीय	घ	
७८७	बर्दिया टाइम्स दैनिक	बर्दिया	दैनिक	स्थानीय	घ	
७८८	मध्यपश्चिम सन्देश दैनिक	बाँके	दैनिक	स्थानीय	घ	
७८९	मार्गनुगामी दैनिक	सिराहा	दैनिक	स्थानीय	घ	
७९०	राष्ट्रिय समाचारपत्र दैनिक	मोरङ	दैनिक	स्थानीय	घ	
७९१	राष्ट्रिय सहारा दैनिक	पर्सा	दैनिक	स्थानीय	घ	
७९२	वाङ्पास दैनिक	पर्सा	दैनिक	स्थानीय	घ	
७९३	विश्व जागरण दैनिक	धनुषा	दैनिक	स्थानीय	घ	
७९४	वीरगञ्ज समाचारपत्र दैनिक	पर्सा	दैनिक	स्थानीय	घ	
७९५	सन्दकपुर दैनिक	इलाम	दैनिक	स्थानीय	घ	
७९६	समाधान न्यूज दैनिक	कैलाली	दैनिक	स्थानीय	घ	
७९७	हाइवे टाइम्स दैनिक	कैलाली	दैनिक	स्थानीय	घ	
७९८	वाणी पाक्षिक	काठमाडौं	पाक्षिक	स्थानीय	घ	
७९९	नेत्रज्योति मासिक	सिन्धुपाल्चोक	मासिक	स्थानीय	घ	
८००	मध्यपुर पोष्ट मासिक	भक्तपुर	मासिक	स्थानीय	घ	
८०१	सचेतना साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८०२	अग्रगामी साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८०३	अन्तरजिल्ला साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८०४	अर्थ आकाश साप्ताहिक	मकवानपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८०५	अलकापुरी साप्ताहिक	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८०६	उत्थान साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८०७	कसार साप्ताहिक	झापा	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८०८	कुरकुरे डटकम साप्ताहिक	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८०९	कुसुमपुर टुडे साप्ताहिक	पर्वत	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८१०	कृषि साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८११	कोठियाघाट साप्ताहिक	बर्दिया	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८१२	खोजबिन साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८१३	गोरेटो साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८१४	गोसाइकुण्ड खबर साप्ताहिक	रसुवा	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८१५	गौशाला टाइम्स साप्ताहिक	महोत्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८१६	चुरेकुञ्ज साप्ताहिक	बर्दिया	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८१७	जनकपुर सम्वाद साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८१८	जनतापत्र साप्ताहिक	सिन्धुपाल्चोक	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८१९	जनविमर्श साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८२०	जनसमीक्षा साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८२१	जानकी साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८२२	तराई अभियान साप्ताहिक	सिराहा	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८२३	तराई उजागर साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८२४	त्रिपुरा न्यूज साप्ताहिक	भक्तपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८२५	द एसियन मिरर साप्ताहिक	सुनसरी	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	

सि नं	पत्रिकाको नाम	जिल्ला	पत्रिकाको प्रकार	प्रकृति	वर्ग	कैफियत
८२६	दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक	कञ्चनपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८२७	दूरदर्शी साप्ताहिक	उदयपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८२८	नव जनप्रिय साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८२९	नामी साप्ताहिक	ललितपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८३०	निर्माणलहर साप्ताहिक	झापा	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८३१	नेपाल मेल साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८३२	परिवर्तनशील आवाज साप्ताहिक	भक्तपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८३३	पश्चिमपोष्ट साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८३४	फूलपाती साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८३५	बाजुरा अपडेट साप्ताहिक	बाजुरा	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८३६	बिन्दुकेशरा साप्ताहिक	धादिङ	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८३७	बिरुवा साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८३८	बिलोचन साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८३९	बुलन्द साप्ताहिक	अर्घाखाँची	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८४०	मिथिलाञ्चल एक्सप्रेस	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८४१	मुस्ताङ् साप्ताहिक	मुस्ताङ्	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८४२	राष्ट्र संरक्षण साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८४३	रिपोर्टस आवाज साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८४४	रौतहट आवाज साप्ताहिक	रौतहट	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८४५	लोकसमीक्षा साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८४६	शब्द ब्रम्ह साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८४७	शिष्टाचार साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८४८	श्रवण साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८४९	श्री जनता साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८५०	सञ्चारवाणी साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८५१	सप्तरी पोष्ट साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८५२	सम्पूर्ण समाचार साप्ताहिक	सिन्धुली	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८५३	सर्वशक्तिमान साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८५४	सहिद साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८५५	साझा प्रतिबिम्ब साप्ताहिक	दैलेख	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८५६	साप्ताहिक दिग्दर्शन	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८५७	साम साप्ताहिक	मकवानपुर	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८५८	सिन्धुली अपडेट साप्ताहिक	सिन्धुली	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८५९	सिमाना साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८६०	सूचना दिग्दर्शन साप्ताहिक	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८६१	स्थानीय सन्देश साप्ताहिक	इलाम	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८६२	हाम्रो युग दर्पण साप्ताहिक	कैलाली	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८६३	हाम्रो सेती साप्ताहिक	कैलाली	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८६४	बेतना दैनिक	मोरङ	दैनिक	स्थानीय	घ	
८६५	मानसरोवर राष्ट्रिय दैनिक	दार्चुला	दैनिक	स्थानीय	घ	
८६६	अमरगढी पोष्ट दैनिक	डडेलधुरा	दैनिक	स्थानीय	घ	
८६७	रेजा टुडे दैनिक	धनुषा	दैनिक	स्थानीय	घ	
८६८	मिथिलाञ्चल विशेष दैनिक	धनुषा	दैनिक	स्थानीय	ख	
८६९	रौतहट भ्वाइस साप्ताहिक	रौतहट	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८७०	प्रबुद्धि साप्ताहिक	स्याङ्जा	साप्ताहिक	स्थानीय	घ	
८७१	नारायणी टुडे दैनिक	पर्सा	दैनिक	स्थानीय	घ	

सि नं	पत्रिकाको नाम	जिल्ला	पत्रिकाको प्रकार	प्रकृति	वर्ग	कैफियत
८७२	जनप्रतिबिम्ब दैनिक	पर्सा	दैनिक	स्थानीय	घ	
८७३	जनउदवार साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	घ	
८७४	नयाँ करेन्ट साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	घ	
८७५	नेपालन्युज साप्ताहिक	भक्तपुर	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	घ	
८७६	नेपाली सरोकार मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय	घ	
८७७	शासकीय सुधार साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय	घ	
८७८	सुदूरसन्देश दैनिक	कैलाली	दैनिक	राष्ट्रिय	घ	
८७९	चियाबारी दैनिक	इलाम	दैनिक	क्षेत्रीय	घ	
८८०	पिपलबोट दैनिक	बाँके	दैनिक	क्षेत्रीय	घ	
८८१	मिसन टुडे दैनिक	बाँके	दैनिक	क्षेत्रीय	घ	
८८२	लोकमञ्च दैनिक	सुर्खेत	दैनिक	क्षेत्रीय	घ	
८८३	शुक्लाफाँटा दैनिक	कञ्चनपुर	दैनिक	क्षेत्रीय	घ	
८८४	सर्वेक्षण दैनिक	पर्सा	दैनिक	क्षेत्रीय	घ	
८८५	कपिलबस्तु सन्देश साप्ताहिक	कपिलबस्तु	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	घ	
८८६	जनभेट साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	घ	
८८७	देशदर्पण साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	घ	
८८८	धरान साप्ताहिक	सुनसरी	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	घ	
८८९	नेपालपत्र साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	घ	
८९०	परिज्ञान साप्ताहिक	कास्की	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	घ	
८९१	प्रतिपत्र साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	घ	
८९२	मैथिली संदेश साप्ताहिक समाचार	महोत्तरी	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	घ	
८९३	सुशासन न्युज साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	घ	
८९४	स्रोत साप्ताहिक	सर्लाही	साप्ताहिक	क्षेत्रीय	घ	
८९५	काक्रेबिहार दैनिक	सुर्खेत	दैनिक	क्षेत्रीय	घ	
८९६	समय आवाज साप्ताहिक	सुनसरी	साप्ताहिक	स्थानीय		कागजात नपुग
८९७	मुलुकी दैनिक	उदयपुर	दैनिक	स्थानीय		अंक नपुग
८९८	बिस्फोटन दैनिक	सुनसरी	दैनिक	क्षेत्रीय		अंक नपुग
८९९	सिमाञ्चल दैनिक	धनुषा	दैनिक	स्थानीय		अंक नपुग
९००	हुलाकी राजमार्ग साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय		अंक नपुग
९०१	आशक्ति साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय		अंक नपुग
९०२	हस्टीचर्चा साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय		अंक नपुग
९०३	काब्य साप्ताहिक	बारा	साप्ताहिक	स्थानीय		अंक नपुग
९०४	नागरिक आवाज मासिक	काठमाडौं	मासिक	स्थानीय		अंक नपुग
९०५	कम्युनिकेशन भ्वाइस मासिक	काठमाडौं	मासिक	स्थानीय		अंक नपुग
९०६	कामना मासिक	ललितपुर	मासिक	राष्ट्रिय		अंक नपुग
९०७	हिपत मासिक	काठमाण्डौं	मासिक	स्थानीय		अंक नपुग
९०८	सिंह दैनिक	पर्सा	दैनिक	स्थानीय		अंक नपुग
९०९	सन्डे टाइम्स अर्ध-साप्ताहिक	पर्सा	अर्ध-साप्ताहिक	क्षेत्रीय		अंक नपुग
९१०	अर्थ विचार साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय		अंक नपुग
९११	चिनारी सन्देश साप्ताहिक	मकवानपुर	साप्ताहिक	स्थानीय		अंक नपुग
९१२	साधना मासिक	ललितपुर	मासिक	राष्ट्रिय		अंक नपुग
९१३	अपि टाइम्स साप्ताहिक	दार्चुला	साप्ताहिक	स्थानीय		अंक नपुग
९१४	साकार पाक्षिक	मोरङ	पाक्षिक	स्थानीय		पृष्ठ नपुग
९१५	पोल्ट्री न्युज मासिक	सुनसरी	मासिक	क्षेत्रीय		पृष्ठ नपुग
९१६	नेशनल मिरर मासिक	काठमाडौं	मासिक	राष्ट्रिय		पृष्ठ नपुग
९१७	पूर्व नेपाल साप्ताहिक	उदयपुर	साप्ताहिक	स्थानीय		हबह

सि नं	पत्रिकाको नाम	जिल्ला	पत्रिकाको प्रकार	प्रकृति	वर्ग	कैफियत
९१८	सनसनी खबर साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९१९	रौतहट जागरण साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९२०	स्मृति टाइम्स साप्ताहिक	धनुषा	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९२१	श्रीकृष्ण वाणी साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९२२	भोजपुरी आवाज	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९२३	सप्तरी टाइम्स	सप्तरी	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९२४	गणधरणा साप्ताहिक	सिराहा	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९२५	न्यू ज्वारभाटा साप्ताहिक	सिराहा	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९२६	धमिनी साप्ताहिक	सिराहा	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९२७	परामर्श साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	राष्ट्रिय		हुबहु
९२८	आमसञ्चार साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९२९	कम्पिडीसन साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९३०	खबरपत्र साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९३१	झोर्ले साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९३२	नेपाल यात्रा साप्ताहिक	काठमाडौं	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९३३	सक्रिय साप्ताहिक	मकवानपुर	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९३४	नागरिक जागरण	तनहुँ	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९३५	बिहानी खबर साप्ताहिक	तनहुँ	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९३६	सन्तुलित साप्ताहिक	बाग्लुङ	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९३७	कालिका साप्ताहिक	बाग्लुङ	साप्ताहिक	क्षेत्रीय		हुबहु
९३८	कोहलपुर टाइम्स साप्ताहिक	बाँके	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९३९	घोडाघोडी सन्देश साप्ताहिक	कैलाली	साप्ताहिक	क्षेत्रीय		हुबहु
९४०	संघीय एक्सप्रेस अर्धसाप्ताहिक,	रुपन्देही	अर्ध-साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९४१	चर्तुकोण साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	क्षेत्रीय		हुबहु
९४२	राष्ट्रवादी साप्ताहिक समाचारपत्र	मोरङ	साप्ताहिक	क्षेत्रीय		हुबहु
९४३	साप्ताहिक नमस्कार	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९४४	धरणी साप्ताहिक	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९४५	पुष्पाञ्जली साप्ताहिक	मोरङ	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९४६	फास्ट टाइम्स दैनिक	सुनसरी	दैनिक	क्षेत्रीय		हुबहु
९४७	कोशी सम्मान साप्ताहिक	सुनसरी	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९४८	खबर प्रवाह साप्ताहिक	सुनसरी	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९४९	इटहरी साप्ताहिक	सुनसरी	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९५०	शारदा साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९५१	त्रिनेत्रपोष्ट साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९५२	मोर्चा साप्ताहिक	पर्सा	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु
९५३	बारा खबर साप्ताहिक	बारा	साप्ताहिक	स्थानीय		हुबहु